

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल, सोमवार दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला देवास में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 4 जनवरी 2010

झोनल अधिकारियों की सूची

क्र. 73-पं.नि.-का.व्य.-10.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2010 के लिए विकासखण्ड, देवास, जिला देवास में निम्नलिखित नियुक्त किये गये झोनल अधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधिकार देने के संबंध में :-

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)
1	श्री ए.पी. सक्सेना, श्रम पदाधिकारी, देवास	देवास
2	श्री जी.एस. बामनिया, जिला शिक्षा अधिकारी, देवास	देवास
3	श्री एन.एस. परिहार, महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1, देवास.	देवास

(1)	(2)	(3)
4	डॉ. ए. के. झारी, उप संचालक, पशु चिकित्सा, देवास	देवास
5	श्री व्ही. एस. सदाफले, जिला रोजगार अधिकारी, देवास	देवास
6	श्री एन. एस. तौमर, महिला एवं बाल विकास, देवास	देवास
7	श्री ओ.पी.एस. तौमर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, देवास	देवास
8	श्री सी.एस. चौहान, चल चिकित्सा अधिकारी, उप संचालक, पशु चिकित्सालय, देवास	देवास
9	श्री बी.एल. मालवीया, सहायक कृषि संचालक, देवास	देवास
10	श्रीमती शिल्पा जैन, जिला संयोजक, आ.जा.क.वि., देवास	देवास
11	श्री जे. पी. गौर, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, देवास	देवास
12	श्री के.के. जोशी, सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास	देवास
13	श्री संजय दोशी, सहायक संचालक, कृषि, देवास	देवास
14	श्री पंकजराव गौरखेडे, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेकेनिकल, देवास	देवास
15	डॉ. श्यमा श्रीवास्तव, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सालय, देवास	देवास
16	श्री के.एल. माझी, सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, देवास	देवास
17	श्री पी.डी. नारिया, उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, देवास	देवास
18	श्री यू.एस. महेश्वरी, तकनीकी अधिकारी, उप संचालक, पशु चिकित्सा, देवास	देवास
19	श्री आर. के. श्रीवास्तव, एस.डी.आ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, देवास	देवास
20	श्री एन. गंधे, सहायक यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, उप संभाग, देवास	देवास

रिजर्व दल :-

रिजर्व दल :-

1. श्री यू.एस. शाक्य, सहायक संचालक, उद्यानिकी, देवास. देवास
2. डॉ. आर.के. कानुनगो, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय, देवास.
3. श्रीमती मनोरमा गुप्ता, योजना अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, देवास.

देवास, दिनांक 4 जनवरी 2010

झोनल अधिकारियों की सूची

क्र. 74-पं.नि.-का.व्य.-10.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2010 के लिए विकासखण्ड, सोनकच्छ, जिला देवास में निम्नलिखित नियुक्त किये गये झोनल अधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी के अधिकार देने के संबंध में :-

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)
1	श्री जे.एस. राणावत, सहायक यंत्री, जल संसाधन उप संभाग, सोनकच्छ	सोनकच्छ
2	श्री एच.के. व्यास, सहायक यंत्री, देवास विकास प्राधिकरण, देवास	सोनकच्छ
3	श्री बी.एम. गुप्ता, सहायक यंत्री, देवास विकास प्राधिकरण, देवास	सोनकच्छ

(1)	(2)	(3)
4	श्री अमर येवले, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, देवास	सोनकच्छ
5	श्री आर.के. भवर, प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, देवास	सोनकच्छ
6	श्री आसिम शेख, सहायक यंत्री, नगरपालिक निगम, देवास	सोनकच्छ
7	श्री जी.एल. व्यास, सहायक संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, देवास	सोनकच्छ
8	श्री एस. के. रावत, क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, देवास	सोनकच्छ
9	श्री ए. के. केशवरे, उप क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देवास	सोनकच्छ
10	श्री नरेश कुमार पाठक, संग्रहाध्यक्ष, शासकीय पुरातत्व संग्रहालय, देवास	सोनकच्छ

रिजर्व दल :-

1. श्री सचिन सलिवट, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, देवास
2. श्री प्रदीप पाठक, सहायक यंत्री, देवास विकास प्राधिकरण, देवास.

देवास, दिनांक 4 जनवरी 2010

झोनल अधिकारियों की सूची

क्र. 75-पं.नि.-का.व्य.-10.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2010 के लिए विकासखण्ड, टोंकखुर्द, जिला देवास में निम्नलिखित नियुक्त किये गये झोनल अधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधिकार देने के संबंध में :-

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)
1	श्री बी.एल. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, देवास	टोंकखुर्द
2	श्री संजीव झा, अपर वनमंडलाधिकारी, वनमंडल (क्षेत्रीय), देवास	टोंकखुर्द
3	श्री राकेश वानखेडे, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास (ग्रामीण), देवास	टोंकखुर्द
4	डॉ. पी.के. पण्ड्या, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, देवास	टोंकखुर्द
5	श्री ओ.पी. सहगल, ग्रामोद्योग अधिकारी, देवास	टोंकखुर्द
6	श्री के.के. गुप्ता, सहायक भू-जल विद, देवास	टोंकखुर्द
7	श्री आर. के. गुप्ता, भू-भौमिकी सहायक, कार्यालय सहायक भू-जल विद, देवास	टोंकखुर्द
8	श्री जी.एस. मालू, सहायक प्रबंधक, म.प्र.ग्रा. सड़क विकास प्राधिकरण इकाई-2, देवास	टोंकखुर्द
9	श्री एस.के. सिरोठिया, महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा. सड़क विकास प्राधिकरण, इकाई-2	टोंकखुर्द
10	श्री के.पी. सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास	टोंकखुर्द

रिजर्व दल :-

1. श्री ललित वेगड़, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, देवास
2. श्री अरूण वैद्य, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, देवास.

देवास, दिनांक 4 जनवरी 2010

झोनल अधिकारियों की सूची

क्र. 76-पं.नि.-का.व्य.-10.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2010 के लिए विकासखण्ड, बागली, जिला देवास में निम्नलिखित नियुक्त किये गये झोनल अधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधिकार देने के संबंध में :—

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)
1	श्री सुमत कुमार जैन, सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्र. 1, देवास	बागली
2	श्री महेश कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्र. 1, देवास	बागली
3	श्री के.बी. गुप्ता, सहायक प्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्र. 1, देवास	बागली
4	श्री के.एल. लोंदवाल, उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडल (क्षेत्रीय), बागली	बागली
5	डॉ. पन्नालाल पंवार, पशु चिकित्सा स.श. पशु चिकित्सालय, देवास	बागली
6	श्री पी. के. वर्मा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास	बागली
7	श्री ए.वी. खराटे, उप वनमंडलाधिकारी वनमंडल (क्षेत्रीय), बागली	बागली
8	श्री डॉ. मोहम्मद अब्बास, सहायक संचालक, कृषि, देवास	बागली
9	श्री मुकेश चतुर्वेदी, सहायक यंत्री, जल संसाधन, उप संभाग, बागली	बागली
10	श्री एस.एस. अली, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग, बागली	बागली
11	श्री विजय श्रीवास्तव, जिला समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, देवास	बागली
12	श्री अशोक कुमार जैन, उप प्रबंधक, म.प्र. वित्त निगम, देवास	बागली
13	श्री संजय भारद्वाज, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बागली	बागली
14	श्री हेमंत सेठी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड, बागली	बागली
15	श्री एस.के. हम्पी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड, बागली	बागली
16	श्री राजेश पाटीदार, सहायक यंत्री, विद्युत सुरक्षा उपसंभाग, देवास	बागली

रिजर्व दल :—

1. श्री संजय सिंह बारोनिया, सहा. प्राध्यापक, के.पी. कॉलेज, देवास
2. श्री बी.एस. जाधव, सहा. प्राध्यापक, कन्या महाविद्यालय, देवास.

देवास, दिनांक 4 जनवरी 2010

झोनल अधिकारियों की सूची

क्र. 77-पं.नि.-का.व्य.-10.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2010 के लिए विकासखण्ड, कन्नौद, जिला देवास में निम्नलिखित नियुक्त किये गये झोनल अधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधिकार देने के संबंध में :—

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)
1	श्री ए.के. कानूनगो, विकासखण्ड अधिकारी, जनपद पंचायत, कन्नौद	कन्नौद
2	श्री सी.के. जगताप, अनुविभागीय अधिकारी, चंद्रकेशर बांध कांटाफोड	कन्नौद

(1)	(2)	(3)
3	श्री पी.सी. दाहिमा, अनुविभागीय अधिकारी वन (क्षेत्रीय), कन्नौद	कन्नौद
4	डॉ. अशोक बरेठिया, सहायक पशु शल्य चिकित्सक पशु चिकित्सा सेवाएं, कन्नौद	कन्नौद
5	डॉ. डी.के. जैन, सहायक पशु शल्य चिकित्सक, पशु चिकित्सा सेवाएं, भौरासा, तहसील सोनकच्छ	कन्नौद
6	कुंजन सिंह सोनगरा, सहायक प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय, कन्नौद	कन्नौद
7	श्री संजय हरणे, सहायक प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय, कन्नौद	कन्नौद
8	श्री एच.एस. मंडलोई, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. कन्नौद	कन्नौद
9	श्री जे.पी. प्रजापति, सहायक यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., सतवास	कन्नौद
10	श्री के. एन. व्यास, सहायक यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., कांटाफोड	कन्नौद
11	श्री व्ही. के. रैना, उप वनमंडल अधिकारी, वनमंडल उत्पादन, बागली	कन्नौद
12	श्री एच.एस. खिची, उप वनमंडल अधिकारी, वनमंडल उत्पादन, देवास	कन्नौद
13	श्री साबीर अहमद सिद्धीको, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, देवास	कन्नौद
14	श्री मदनलाल वास्केल, अनु. विभागीय अधिकारी, कृषि, कन्नौद	कन्नौद

रिजर्व दल :-

1. श्री पी.एन. पिपलोनिया, इंजीनियर, नगर पंचायत, कन्नौद
2. श्री प्रवीण जैन, परि.अधि. महिला एवं बाल विकास विभाग, कन्नौद.

देवास, दिनांक 4 जनवरी 2010

झोनल अधिकारियों की सूची

क्र. 78-पं.नि.-का.व्य.-10.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2010 के लिए विकासखण्ड, खातेगांव, जिला देवास में निम्नलिखित नियुक्त किये गये झोनल अधिकारियों को कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी के अधिकार देने के संबंध में :-

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	विकासखण्ड का नाम (3)
1	श्री पंकज कौशल, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, कन्नौद	खातेगांव
2	श्री डी.एस. मुजाल्दा, सहायक संचालक, कृषि, देवास	खातेगांव
3	श्री एम.ए. खान, उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उत्पादन, बागली	खातेगांव
4	श्री व्ही. के. अग्रवाल, उप संचालक, कृषि, देवास	खातेगांव
5	श्री ए.के. गोयल, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा देवास संभाग	खातेगांव
6	श्री राजेश यादव, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, देवास	खातेगांव
7	श्री राममिलन साहू, वाणिज्यिक कर अधिकारी, देवास	खातेगांव
8	श्री इन्द्रपाल सिंह गांधी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, देवास	खातेगांव
9	श्री प्रदीप पाठक, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, देवास	खातेगांव

रिजर्व दल :-

1. श्री के.के. जैन, उपयंत्री, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, देवास
2. श्री के.आर. रायकवार, कार्यपालन अधिकारी, जिला अन्त्यव्यवसायी, देवास